



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 823) पटना, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2014

सं0 22/नि0सि0(मोति0)-08-15/2014/1108—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मिकीनगर परिक्षेत्राधीन चंपारण तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन चंपारण तटबंध के कि0मी0 9.00 पर हुए टूटान/कटान में बरती गई लापरवाही आदि आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए श्री अशोक कुमार, सहायक अभियंता, चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार, सहायक अभियंता, चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है ।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

4. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 823-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>